

राज्यसमाचार

उत्तर प्रदेश

डिफेंस कॉरीडोर: रक्षा उपकरणों के आयात पर देश की निर्भरता कम करेगा

- उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित डिफेंस कॉरीडोर रक्षा उपकरणों के आयात पर देश की निर्भरता कम करने के साथ सूखे की विभीषिका झेलने वाले बुंदेलखंड में रोजगार सृजन के द्वार भी खोलेगा।

हरियाणा

एलपीजी कनेक्शन के लिए चलेगा अभियान

- 40 हजार परिवारों के पास अभी भी एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है। ऐसे सभी परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सर्वेक्षण एवं एक बड़ी मुहिम चलाने का फैसला लिया है।
- आगामी 20 अप्रैल को इसी उद्देश्य से उज्ज्वला दिवस भी मनाया जा रहा है। इस दिन जिला स्तर पर तेल मार्केटिंग कंपनियों के सहयोग से कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

राष्ट्रीयसमाचार

सुप्रीम कोर्ट : स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गाइडलाइंस

- बच्चों को अपने स्कूलों में सुरक्षित रहना चाहिए। यौन उत्पीड़न और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के शिकार न बनें। इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश भर के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। सरकार को तीन महीने के भीतर सरकारी और निजी स्कूलों के लिए इन दिशानिर्देश जारी करना होगा।

देश में पहली बार पॉड टैक्सी

- दिल्ली के धौलाकुआं से मानेसर तक मेट्रिनो पॉड टैक्सी का काम डेढ़ महीने में शुरू हो जाएगा। यह टैक्सी तारों के जरिए हवा में चलेगी। इसके लिए तीन कंपनियों के टेंडर आ चुके हैं। इन पर मंथन चल रहा है।

सरकार दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-चंडीगढ़ रूट पर डबल डेकर बस चलाने पर भी विचार कर रहा है, इसमें फ्लाइट की तरह सुविधाएं मिलेंगी।

एमएसएमई निर्यातकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने आज नई दिल्ली में एमएसएमई निर्यातकों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'फियो ग्लोबललिंगर' को लांच किया, ताकि उनके व्यवसाय का डिजिटलीकरण किया जा सके और वे बढ़ते व्यवसायों के वैश्विक समुदाय से जुड़ सकें।

अंतरराष्ट्रीयसमाचार

150 साल से घर के पीछे दबे थे 8 मटके, अंदर छिपा था करोड़ों का खजाना

- एक्सपर्ट्स ने कपल को बताया कि ये सिक्के उस जगह करीब 150 सालों से दफन थी। इनमें से कुछ सिक्के अब काफी रेयर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि घर के पुराने मालिक ने शायद इन्हें फ्यूचर के लिए दफनाया होगा, लेकिन फिर भूल गए होंगे।

नियुक्तियों

एनसीसी के महानिदेशक

- ले. जनरल पी.पी. मल्होत्रा ने विश्व में युवा कैडेटों के सबसे बड़े संगठन, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है।

आर्थिक समाचार

विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया

- विश्व बैंक ने इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.3% रहने का अनुमान जताया है। साथ ही कहा कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों के असर से अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे उबर रही है।

खेल समाचार

टेनिस रैंकिंग: युकी भांबरी की शीर्ष 83 में

- युकी भांबरी ने जारी एटीपी टेनिस रैंकिंग में फरवरी 2016 के बाद शीर्ष 100 में वापसी की। युकी 22 स्थान की छलांग के साथ करियर की सर्वश्रेष्ठ 83वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं।

मैनचेस्टर सिटी ने जीता प्रीमियर लीग खिताब

- मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब ने अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) का खिताब जीत लिया है। वेस्ट ब्रोम के खिलाफ खेले गए मैच में मैनचेस्टर युनाइटेड को मिली हार के कारण उसके चिर प्रतिद्वंद्वी क्लब सिटी ने लीग का खिताब जीता।